



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 वैशाख 1941 (श०)  
(सं० पटना 558) पटना, वृहस्पतिवार, 25 अप्रील 2019

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना








15 अप्रील 2019


सं० एम-1-010/2019-31— लोक सभा का आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के आलोक में 14-दरभंगा, 22-उजियारपुर, 23-समस्तीपुर(अ०जा०), 24-बेगूसराय एवं 28-मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7'क' सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
प्रवीण कुमार गुप्ता,  
संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

प्ररूप 7 क  
(नियम 10(1) देखिए)

**निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**  
**14, दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन**

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
<b>(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी</b>					
1.	अब्दुल बारी सिद्दिकी		ग्राम— रूपसपुर पो०— धमसाईन अंचल—अलीनगर थाना— अलीनगर जिला— दरभंगा	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
2.	गोपाल जी ठाकुर		ग्राम —पड़री पो०—पड़री थाना—विरोल जिला —दरभंगा	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	मो० मुख्तार		ग्राम— तारालाही पो०— तारालाही जिला— दरभंगा	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
<b>(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)</b>					
4.	सरोज कुमार चौधरी		ग्राम—मोहम्मदपुर बोआँरी पो०— नौडेगा बलहा थाना— बिरौल जिला—दरभंगा	मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा	गैस सिलेण्डर
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
5.	अबदुल अजीज		ग्राम— फेकला पो०— योगियारा भाया— आनन्दपुर जिला—दरभंगा	निर्दलीय	बाल्टी
6.	पंकज कुमार सिंह		ग्राम—रुस्तमपुर पोस्ट— हायाघाट जिला— दरभंगा	निर्दलीय	बल्ला
7.	संजय पासवान		ग्राम— बलभद्रपुर नवटोलिया पो०— लहेरियासराय जिला— दरभंगा	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
8.	सगुनी राय		ग्राम- देवराम पोस्ट- अमैठी जिला- दरभंगा	निर्दलीय	कप और प्लेट

स्थान: समाहरणालय, दरभंगा






तारीख: 12.04.2019




(ह०) अस्पष्ट,  
निर्वाची पदाधिकारी,  
14-दरभंगा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।

**FORM 7 A**

[See rule 10 (I)]

**LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES****Election to the House of the People from the 14- Darbhanga Parliamentary Constituency.**

Sl No.	Name of Candidate	Candidate Photograph	Address of candidates	Party affiliation	Symbol Alloted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.</b>					
1.	Abdul Bari Siddiqui		Vill- Rupaspur PO- Dhamsain PS- Alinagar Dist- Darbhanga	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
2.	Gopal Jee Thakur		Vill- Parri PO- Parri PS- Biroul Dist- Darbhanga	Bharatiya Janata Party	Lotus
3.	MD. MUKHTAR		At+PO- Taralahi Dist- Darbhanga	Bahujan Samaj Party	Elephant
<b>(ii) Candidates of registered Political Parties (other than recognized National and State Political Parties).</b>					
4.	Saroj Kumar Chaudhary		Vill- Mohammadpur Boanri PO- Naudega Balha PS- Biraul Dist- Darbhanga	Mithilanchal Mukti Morcha	Gas Cylinder
<b>(iii) Other Candidates.</b>					
5.	Abdul Aziz		Vill- Fekla PO- Yogyara Via- Anandpur Dist- Darbhanga	Independent	Bucket

Sl No.	Name of Candidate	Candidate Photograph	Address of candidates	Party affiliation	Symbol Alloted
1	2	3	4	5	6
6.	PANKAJ KUMAR SINGH		Vill- Rustampur PS- Hayaghat Dist- Darbhanga	Independent	Bat
7.	SANJAY PASWAN		Balbhadrapur Navtolia PO- Laheriasarai Dist- Darbhanga	Independent	Air Conditioner
8.	SAGUNI RAY		Vill-Devram PO- Amaithi Dist- Darbhanga	Independent	Cup & Saucer

Place: Collectorate Darbhanga

Date: 12.04.2019

Sd/-Illegible,  
Returning Officer.  
14- Darbhanga Parliamentary Constituency.

## प्ररूप 7क




[ नियम 10 (1) देखिए ]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

22-उजियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	अजय कुमार		ग्राम+पो०-बेलारी थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हॉसिया और सितारा
2	उपेन्द्र कुशवाहा		ग्राम+पो०-जावज थाना-महनार जिला-वैशाली	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	छत का पंखा
3	नवीन कुमार		ग्राम+पो०-पतैलिया भाया-नरहन थाना-विभूतिपुर जिला-समस्तीपुर	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
4	नित्यानन्द राय		ग्राम-कर्णपुरा डाकघर-जदुआ थाना-गंगाब्रिज जिला-वैशाली	भारतीय जनता पार्टी	कमल
(ii) रजिष्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
5	डा० अजय सिंह अलमस्त		ग्राम-रामपुर बखरी पो०-वसंतपुर बखरी भाया-टी०सी०ए०, ढोली जिला-मुजफ्फरपुर	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	ट्रक
6	अमरेन्द्र कुमार यादव		ग्राम+पो०-दशहारा भाया-मोहिउद्दीन नगर जिला-समस्तीपुर	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	चाबी

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
7	ए एम इजहारूल हक		ग्राम-चाँदपुर फतह पो०-राजा पाकर थाना-पातेपुर जिला-वैशाली	साथी और आपका फैसला पार्टी	बुश
8	कुमार गौरव		ग्राम+पो०-मुर्तुजापुर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	जय प्रकाश जनता दल	डीजल पम्प
9	जय नारायण साह		ग्राम-चैनपुर डाकघर-अबाबकरपुर थाना-गोरौल जिला-वैशाली	बज्जिकांचल विकास पार्टी	अंगूर
10	मनोज कुमार		ग्राम-चकफैज पो०-सुककी थाना-पातेपुर जिला-वैशाली	जनता राज विकास पार्टी	छड़ी
11	राज कुमार चौहान		ग्राम-नून गोला पो०-हाजीपुर थाना-हाजीपुर नगर जिला-वैशाली	बिहार लोक निर्माण दल	बकसा
12	ललन कुमार राय		ग्राम-पौड़ पो०-चकबहाउद्दीन थाना-दलसिंहसराय जिला-समस्तीपुर	बलीराजा पार्टी	खाने से भरी थाली
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
13	अल्लामा शिबली नोमानी हलामी		मो०-धरमपुर पोस्ट-समस्तीपुर थाना-समस्तीपुर नगर जिला-समस्तीपुर पिन-848101	निर्दलीय	बाल्टी

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
14	प्रणव कुमार		ग्राम-पो-बहादुरपुर पटोरी थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर राज्य बिहार पिन कोड 848504	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
15	ममता कुमारी		ग्राम-केराई पो-केराई थाना-विभूतिपुर जिला-समस्तीपुर	निर्दलीय	हैलीकॉप्टर
16	मोहम्मद अनवर		महुआ मुकुन्दपुर, पुरानी बाजार पो-थाना-महुआ, जिला-वैशाली	निर्दलीय	कप और प्लेट
17	रामाश्रय ठाकुर		ग्राम-नन्दनी पोस्ट-सिवैसिंगपुर थाना-मोहिउद्दीन नगर जिला-समस्तीपुर	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
18	सुधीर कुमार राय		दक्षिणी धमौन थाना, अनुमण्डल-पटोरी जिला-समस्तीपुर	निर्दलीय	मोतियों का हार

तारीख:

(ह०) अस्पष्ट,  
निर्वाची पदाधिकारी,  
22-उजियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।









**FORM 7 A**






[See rule 10 (1)]

**List of Contesting Candidates**

**Election to the House of the People from the 22-Ujiarpur Parliamentary Constituency**

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
<b>Candidates of Recognized National and State Political Party)</b>					
1	Ajay Kumar		Vill.+PO.-Belari P.S-Ujiarpur Dist-Samastipur	Communist Party of India(Marxist)	Hammer, Sickle and Star
2	Upendra Kushwaha		Vill.+Po.-Jawaj P.S-Mahnar Dist-Vaishali	Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan
3	Navin Kumar		Vill.+Po.- Pateliya Via-Narhan P.S-Bibhutipur Dist-Samastipur	Bahujan Samaj Party	Elephant
4	Nityanand Rai		Vill-Karnpura PO-Jadhua P.S-Ganga Bridge Dist-Vaishali	Bharatiya Janata Party	Lotus
<b>Candidates of Ragistered Political party ( Other than National and State Political Party)</b>					
5	Dr. Ajay Singh Almust		Vill-Rampur Bakhri Po-Basantpur Bakhari Via-T.C.A. Dholi Dist- Muzaffarpur	Rashtriya Samta Party(Secular)	Truck
6	Amrendra Kumar Yadav		Vill.+Po.- Dashara Via-Mohiuddin Nagar Dist-Samastipur	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	Key

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
7	A M Izharul Haque		Vill-Chandpur Fatah PO-Raja pakar P.S-Patepur Dist-Vaishali	Sathi Aur Aapka Faisala Party	Brush
8	Kumar Gaurav		Vill.+Po.- Murtuzapur P.S-Jandaha Dist-Vaishali	Jai Prakash Janata Dal	Diesel Pump
9	Jay Narayan Sah		Vill-Chainpur PO- Ababakarpur P.S-Goraul Dist-Vaishali	Bajjikanchal Vikas Party	Grapes
10	Manoj Kumar		Vill-Chakfaiz PO-sukki P.S-Patepur Dist-Vaishali	Janta Raj Vikas Party	Walking Stick
11	Raj Kumar Chauhan		Vill-Nun Gola PO-Hajipur P.S-Hajipur Nagar Dist-Vaishali	Bihar Lok Nirman Dal	Box
12	Lalan Kumar Roy		Vill-Panr PO- Chakbahauddin P.S- Dalsinghsarai Dist-Samastipur	Baliraja Party	Plate Containing Food

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
<b>Other Candidates</b>					
13	Allamaa Shiblee Nomanee Halami		Vill-Dharampur PO-Samastipur P.S-Samastipur Nagar Dist-Samastipur Dist-Samastipur PIN 848101	Independent	Bucket
14	Pranav Kumar		Vill-Bahadurpur Patori PS-Patori Dist-Samastipur State Bihar Pin 848504	Independent	Gas Cylinder
15	Mamta Kumari		Vill-Kerai PO.-Kerai P.S.-Bibhutipur Dist-Samastipur	Independent	Helicopter
16	MD. Anwar		Mahua Mukundpur Purani Bazar PO+P.s-Mahua Dist-Vaishali	Independent	Cup & Saucer
17	Ramashray Thakur		Vill-Nandni PO- Shivaishampur P.S-Mohiuddin Nagar Dist-Samastipur	Independent	Auto-Rickshaw
18	Sudhir Kumar Ray		South Dhamaon P.S, Sub. Div.- Patori Dist-Samastipur	Indipendent	Bead Necklace

Place.....

Date .....

Sd/-Illegible,  
Returning Officer  
22-Ujiarpur Parliamentary Constituency.

## प्ररूप 7क

[ नियम 10 (1) देखिए ]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

23-समस्तीपुर (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	डॉ० अशोक कुमार		42-B, श्रीकृष्णापुरी, पो०-जी०पी०ओ०, पटना, थाना-श्रीकृष्णापुरी, जि०-पटना-800001	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
2	मंदेश कुमार		ग्राम+पो०-धुरलख, थाना-समस्तीपुर (मु०), जिला समस्तीपुर	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
3	रामचन्द्र पासवान		मंत्री जी टोला, ग्रा०+पो०-शहरवन्नी, था०+अ०-अलौली, जि० खगड़िया (बिहार)	लोक जन शक्ति पार्टी	बंगला
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	आशा देवी		कल्याणपुर, (848160) थाना-विभूतिपुर, जि०-समस्तीपुर	आम अधिकार मोर्चा	चपाती रोलर
5	पिकू पासवान		ग्राम+पो०-विक्रमपुर बान्दे, थाना- समस्तीपुर (मु०), जिला-समस्तीपुर	युवा क्रांतिकारी पार्टी	तरबूज
6	रतन बिहारी		ग्राम-पड़री, पोस्ट-बुढ़वा, थाना-अलौली, अनुमण्डल+ जिला-खगड़िया	जन अधिकार पार्टी	डोली

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
7	राज कुमार राम		ग्राम वो पोस्ट कावाडीह, थाना बलिगाँव, जिला-वैशाली पिन 843114	भारतीय मोमिन फ्रंट	काँच का गिलास
8	लालो पासवान		ग्राम-एकद्वारी पो0-हाँसा, थाना-वारिसनगर, जिला-समस्तीपुर	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	गैस सिलेण्डर
9	विजय कुमार राम		ग्राम एवं पोस्ट-भरपुरा थाना विभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर	वंचित समाज पार्टी	टीलर
10	विद्यानन्द राम		ग्राम+पो0-पोहदी बेला, थाना-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा	वाजिब अधिकार पार्टी	आदमी व पाल युक्त नौका
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
11	सुरज कुमार दास		ग्राम+पो0-किशनपुर युसुफ, थाना-सरायरंजन, जिला-समस्तीपुर	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा

स्थान : समस्तीपुर  
तारीख : 12.04.2019







(ह०) अस्पष्ट,  
निर्वाची पदाधिकारी  
23-समस्तीपुर (अ०जा०) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।

## FORM 7 A

[See rule 10 (1)]

## List of Contesting Candidates

## Election to the House of the People from the 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of Recognized National and State Political Party)</b>					
1	Dr. Ashok Kumar		42-B, Srikrishnapuri, PO-G.P.O., Patna, P.S- Srikrishnapuri, Dist-Patna- 800001	Indian National Congress	Hand
2	Mantesh Kumar		Village+PO- Dhurlakh, P.S.-Samastipur (M), District Samastipur	Bahujan Samaj Party	Elephant
3	Ramchandra Paswan		Mantri Jee tola, Vill+PO- Saharbanni, PS+Anchal- Alouli, Dist- Khagaria (Bihar)	Lok Jan Shakti Party	Bungalow
<b>(ii) Candidates of Registered Political party ( Other than National and State Political Party)</b>					
4	Asha Devi		Kalyanpur, (848160) PS-Bibhutipur Dist-Samastipur	Aam Adhikar Morcha	Chapati Roller
5	Pinku Paswan		Village+PO- Bikrampur Bandey, P.S.- Samastipur (M), District- Samastipur	Yuva Krantikari Party	Water Melon
6	Ratan Bihari		Village-Parri, Post-Budhwa, P.S.-Alouli, Sub Division+ District- Khagaria	Jan Adhikar Party	Dolli

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
7	Raj Kumar Ram		Village O Post Kawadih, PS Baligawn, District Vaishali Pin 843114	Bharatiya Momin Front	Glass Tumbler
8	Lalo Paswan		Village-Ekduari, PO-Hansa, PS- Warishnagar, District- Samastipur	Voters Party International	Gas Cylinder
9	Vijay Kumar Ram		Village and Post-Bharpura PS Bibhutipur, District- Samastipur	Vanchit Samaj Party	Tiller
10	Vidya Nand Ram		Village+Po- Pohaddi Bela, PS- Ghanshyampur, District- Darbhanga	Wazib Adhikar Party	Boat with Man and Sail
<b>(iii) Other Candidates</b>					
11	Suraj Kumar Das		Village+Po- Kishanpur Yusuf, PS-Sarairanjan, District- Samastipur	Independent	Auto-Rickshaw

Place- Samastipur

Date -12-04-2019

Sd/-Illegible,  
Returning Officer  
23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency.







1[प्ररूप 7क





[ नियम 10 (1) देखिए ]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

24-बेगूसराय लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	कन्हैया कुमार		ग्राम-बीहट (मसनदपुर) पो0-बीहट	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हाँसिया
2	गिरिराज सिंह		ग्राम-बड़हिया, थाना-बड़हिया, पो0-बड़हिया, जिला-लखीसराय	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3	मो. तनवीर हसन		ग्राम-उपर टोला, पो0-लखमिनियाँ, थाना-वलिया, जिला-बेगूसराय	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	उमेश पटेल		ग्राम+पो0-रचियाही नया टोला, थाना- मटिहानी, जिला- बेगूसराय	शोषित समाज दल	आरी
5	गौरव कुमार		ग्राम-रामदीरी नकटी, पो0-नकटी, थाना-मटिहानी, जिला-बेगूसराय	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	बाल्टी
6	मकसूदन पासवान		ग्राम+पो0-वागडोव, वार्ड न0-07, थाना-नयागाँव, जिला-बेगूसराय	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई



क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवृत्ति प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
7	अमर कुमार		रतनपुर, वार्ड नं०-20, थाना-नगर, जिला-बेगूसराय	निर्दलीय	प्रेसर कुकर
8	धीरज नरायन		नियामतपुरकला, पो०-पुरुषोत्तमपुर, थाना-अदलहाट, जिला-मिर्जापुर, राज्य उत्तर प्रदेश	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
9	शंभू कुमार सिंह		ग्राम-गोरगामा, थाना-नया गाँव, पो०-गोरगामा, जिला-बेगूसराय	निर्दलीय	चाबी
10	सौरभ		गोल्डेन गेट सहजानन्द नगर बेगूसराय बिहार 851101	निर्दलीय	कप और प्लेट

स्थान : बेगूसराय  
तारीख : 12.04.2019







(ह०) अस्पष्ट,  
रिटर्निंग ऑफिसर,  
24-बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।





## 1[FORM 7 A

[See rule 10 (1)]

## List of Contesting Candidates

## Election to the House of the People from the 24-Begusarai Parliamentary Constituency.

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of Recognized National and State Political parties</b>					
1	Kanhaiya Kumar		Vill-Bihat (Masnadpur) Po-Bihat	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickles
2	Giriraj Singh		Vill-Barahiya, Ps-Barahiya, Po-Barahiya, Dist-Lakhisarai	Bharatiya Janata Party	Lotus
3	Mo. Tanweer Hassan		Vill-Uper Tola, Po-Lakhminia, Ps-Ballia, Dist-Begusarai	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
<b>(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)</b>					
4	Umesh Patel		Vill+PO-Rachiyahi Naya Tola, Ps-Matihani, Dist-Begusarai	Shoshit Samaj Dal	Saw
5	Gaurav Kumar		Vill-Ramdiri Nakti, Po-Nakti, Ps-Matihani, Dist-Begusarai	Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party	Bucket
6	Maksudan Paswan		Vill+Po-Bagdov, Ward no.-07, Ps-Nayagawn, Dist-Begusarai	Bahujan Mukti Party	Cot

S.N.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(iii) Other Candidates</b>					
7	Amar Kumar		Ratanpur, Ward No-20, Ps-Nagar, Dist-Begusarai	Independent	Pressure Cooker
8	Dhiraj Narain		Niyamatpurkalan, Po-Purusottampur, Ps-Adalhat, Dist-Mirzapur, State Uttar Pradesh	Independent	Auto-Rickshaw
9	Shambhu Kumar Singh		Vill-Gorgama, Po-Gorgama, Ps-Naya Gawn, Dist-Begusarai	Independent	Key
10	Saurabh		Golden Gate Sahajanand Nagar Begusarai Bihar 851101	Independent	Cup & Saucer

Place- Begusarai

Date -12-04-2019

Sd/-Illegible,  
**Returning Officer**  
 24- Begusarai Parliamentary Constituency.

## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

<sup>1</sup>[प्ररूप 7क]

(नियम 10 (1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

28-मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	कुमार नवनीत हिमांशु		ग्राम-मोर, पोस्ट-मोर, अंचल-मोकामा, अनुमंडल-बाढ़, थाना-मोकामा, जिला-पटना	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
2	नीलम देवी		ग्राम-नदवान, पोस्ट-नदवान टोला, थाना-बाढ़, जिला-पटना	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
3	राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह		बी0 85, बुद्धा कॉलनी, पटना-800001	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	अजीत कुमार		सा0-काला टोला, बरियारपुर, पो0+थाना-बरियारपुर, जिला-मुंगेर (बिहार) 811211	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	लेडी पर्स
5	अरविन्द कुमार शर्मा		दक्षिणी आनन्दपुरी निचली भाग, थाना-कृष्णापुरी, अंचल-पटना सदर, जिला-पटना, बिहार	राष्ट्रीय हिन्द सेना	हैलीकॉप्टर
6	कृष्णमुरारी कुमार		ग्राम-मनियौंडी, पोस्ट+ थाना-मेहुंस, जिला-शेखपुरा (बिहार)	जन अधिकार पार्टी	डोली

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
7	पंचानन्द सिंह		ग्राम-लक्ष्मीपुर, पो0-लोहची, थाना-सामपुर (हवेली खड़गपुर), जिला-मुंगेर	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	माईक
8	रौशन कुमार		ग्राम+पो0+थाना- बड़हिया, जिला-लखीसराय	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	चाबी
9	विकास कुमार आर्य		साकिन-केशोपुर नक्कीनगर, पोस्ट-जमालपुर, थाना-जमालपुर, जिला-मुंगेर	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	बैटरी टार्च
10	संजय केसरी		बासुदेवपुर, पोस्ट-मुंगेर, जिला-मुंगेर, 811201	शिवसेना	बाँसुरी
11	संतोष कुमार		ग्राम-जकड़पुरा, पोस्ट+थाना-सूर्यगढ़ा, जिला-लखीसराय, पिन कोड-811106	बहु जन मुक्ति पार्टी	चारपाई
12	सूर्योदय पासवान		ग्राम-बुढ़नपुर, पोस्ट-मुबारकपुर, थाना-बाढ़, जिला-पटना	संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी	कप और प्लेट
13	सोनेलाल कोडा		बरमसिया, माताडीह पंचायत, थाना-धरहरा, जिला-मुंगेर	भारतीय बहु जन काँग्रेस	मोतियों का हार
<b>(iii) अन्य अभ्यर्थी</b>					
14	अमरजीत पटेल		ग्राम-रसूलपुर, पोस्ट-वाहाचौकी (अमरपुर), थाना-मेदनीचौकी, जिला-लखीसराय	निर्दलीय	ट्रैक्टर चलाता किसान
15	उचित कुमार		ग्राम-गाड़ी विशनपुर, पो0-पीरी बाजार, थाना-पीरी बाजार, जिला- लखीसराय	निर्दलीय	गुब्बारा

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवृत्ति प्रतीक
1	2	3	4	5	6
16	दिना साव		ग्राम-बिचली मलाही, नया टोला, पोस्ट+थाना-बाढ़, जिला-पटना (बिहार)	निर्दलीय	बल्ला
17	प्रणय कुमार		प्रतिभा भवन, श्री कृष्णा रोड, बेलन बाजार, मुंगेर, थाना-कासिम बाजार, मुंगेर, पोस्ट+जिला-मुंगेर	निर्दलीय	हेलमेट
18	महेश राम		ग्राम-भानपुर, पो0-वीरुपुर, थाना-वीरुपुर(बड़हिया), जिला-लखीसराय	निर्दलीय	कैमरा
19	डॉ० राजेश कुमार रत्नाकर		ग्राम+पोस्ट-कड़रा, थाना-घोसवरी, जिला-पटना	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर

स्थान: मुंगेर

दिनांक: 12.04.2019

(ह०) अस्पष्ट,  
निर्वाची पदाधिकारी,  
28-मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर।







**Conduct of Election Rules, 1961  
(Statutory Rules and Order)**

<sup>1</sup>[Form 7A







[See rule 10 (1)]

**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**







**Election to the House of the People from the 28-Munger Parliamentary constituency**


Sl. No.	Name of Candidate	Candidate Photo	Address of Candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
<b>(i) Candidates of Recognized National and State Political Parties)</b>					
1	Kumar Navneet Himanshu		Vill-Mor, Post-Mor, Anchal-Mokama, Sub-Division-Barh, P.S.-Mokama, Patna	Bahujan Samaj Party	Elephant
2	Nilam Devi		Vill-Nadawan, Post-Nadawan Tola, P.S.-Barh, Dist-Patna	Indian National Congress	Hand
3	Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh		B-85, Budha Colony, Patna-800001	Janata Dal (United)	Arrow
<b>(ii) Candidates of registered political parties (Other than recognised National and State Political Parties)</b>					
4	Ajit Kumar		Vill-kala Tola, Bariyarpur, Po+P.S.-Bariyarpur, Dist-Munger (Bihar) 811211	Jharkhand Mukti Morcha	Lady Purse
5	Arvind Kumar Sharma		Dakshini Anandpuri Nichli Bhag, P.S.-Krishnapuri, Circle-Patna Sadar, Dist-Patna, Bihar	Rashtriya Hind Sena	Helicopter
6	Krishna Murari Kumar		Vill-Maniyari, Post+P.S.-Mehuns, District-Shehpura (Bihar)	Jan Adhikar Party	Dolli



Sl. No.	Name of Candidate	Candidate Photo	Address of Candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
7	Panchanand Singh		Vill-Laxmipur, Po-Lohchi, P.S.- Sampur (Haveli Kharagpur), Dist-Munegr	Jago Hindustan Party	Mike
8	Raushan Kumar		Vill+Po+P.S.- Barahiya, Dist-Lakhisarai	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	Key
9	Vikash Kumar Arya		Town-Keshopur Nakkinagar, Post+P.S.- Jamalpur, District-Munger (Bihar) 811214	Socialist Unity Centre of India (Communist)	Battery Torch
10	Sanjay Kesari		Basudevpur, Post-Munegr, Dist-Munger, 811201	Shiv Sena	Flute
11	Santosh Kumar		Vill-Jakarpura, Post+P.S.- Suryagarha, Dist-Lakhisarai, Pin Code- 811106	Bahujan Mukti Party	Cot
12	Suryoday Paswan		vill-Budhanpur, Post- Mubarakpur, P.S.-Barh, District-Patna	Sankhyanupati Bhagidari Party	Cup & Saucer



Sl. No.	Name of Candidate	Candidate Photo	Address of Candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
13	Sonelal Kora		Barmasiya, Matadih Panchayat, P.S.- Dharhara, Dist- Munger	Bharatiya Bahujan Congress	Bead Necklace
<b>(iii) Other Candidates</b>					
14	Amarjit Patel		Vill-Rasulpur, Post- Vahachowki (Amarpur), P.S.- Medanichowki, Dist-lakhisarai	Independent	Tractor Chalata Kisan
15	Uchit Kumar		Vill-Gari Vishanpur, Po- Piri Bazar, P.S.- Piri Bazar, Dist-Lakhisarai	Independent	Balloon
16	Dina Saw		Vill-Bichli Malahi, Naya Tola, Post+P.S.- Barh, District- Patna (Bihar)	Independent	Bat
17	Pranay Kumar		Pratibha Bhawan, Sri Krishna Road, Belan Bazar Munger, P.S.-Kasim Bazar, Post+Dist- Munger	Independent	Helmet
18	Mahesh Ram		Vill-Bhanpur, Po-Virupur, P.S.-Virupur (Barahiya), Lakhisarai	Independent	Camera

Sl. No.	Name of Candidate	Candidate Photo	Address of Candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
19	Dr. Rajesh Kumar Ratnakar		Vill+Post- Kadra, P.S.- Ghoswari, Dist- Patna (Bihar)	Independent	Air Conditioner

Place- Munger

Date -12-04-2019

Sd/-Illegible,  
**Returning Officer**  
 28-Munger Parliamentary constituency Cum  
 District Magistrate, Munger.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 558-571+50-डी0टी0पी0।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>